FINANCIAL EXPRESS 10

PVP VENTURES LIMITED

CIN: L72300TN1991PLC020122

Reg. Office: KRM Centre, 9th Floor, Door No. 2, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031, Tamil Nadu Corp. Off: Plot No. 83 & 84, 4th Floor, Punnaiah Plaza, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana E-mail ID: investorrelations@pvpglobal.com Website: www.pvpglobal.com

NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Thirty First (31st) Annual General Meeting (AGM) of PVP VENTURES LIMITED will be held on Friday, 30th September, 2022 at 10.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC)/Othe Audio Visual Means (OAVM) for the purpose of transacting the business mentioned in the Notice dated September 06, 2022.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No.17 2020 dated 13th April, 2020, Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No.02/2021 dated 13th January 2021, Circular No.21/2021 dated 14th December, 2021 and Circular No.2/2022 dated 5th May, 2022 (collectively referred to as 'MCA circulars') permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at the venue. In compliance with these MCA circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Thirty First AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to the Members of the Company who have registered their e-mail addresses with the Company/Registrar & Share Transfer Agents.

In accordance with the aforesaid MCA circulars and the SEBI circulars dated 12th May, 2020, 15th January, 2021 and 13th May, 2022. Notice of the AGM and the Annual Report 2021-22 will also be available on the website of the Company i.e.www.pvpglobal.com and also hosted on the stock exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. Members can participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members participating in the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The instructions for joining the AGM and for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company/KFintech can obtain Notice of the 31st AGM, Annual Report and/or login details for joining the 31st AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by writing to NSDL at evoting@nsdl.co.in with details of Folio No. and attaching a self attested scanned copy of the PAN card.

The Resolutions covered in the AGM Notice will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of AGM). Voting through electronic means would commence at 9.00 a.m. on 26th September 2022 and would end at 5.00 p.m. on 29th September 2022. Please note that the voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 29th September 2022. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the cut off date may obtain the user ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote during the AGM through evoting facility. Members who have cast their vote through remote evoting prior to the Meeting, may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.

Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank account through Electronic Clearing Service (NECS/NACH) or any other means (Electronic Bank Mandate) can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending a self-attested scanned copy of the cancelled cheque issued by the Banker after implementation of the Core Banking System, bearing the name of the sole shareholder (in case of joint holding, the name of the first holder shall be mentioned in the cheque leaf) by email to e-inward.ris@kfintech.com Members holding shares in demat form can update their e-mail address and bank account details by submitting a request to the concerned Depository Participants. Considering the above, we urge the shareholders to update their e-mail id, bank account details and PAN with the Company/KFintech/Depository Participant to ensure receipt of the Annual Report, dividend and/or any other consideration and other communications from the Company. SEBI vide its circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has mandated furnishing of PAN, KYC details, nomination and compulsory linking of PAN and Aadhaar by the shareholders holding shares in physical form. Letters pursuant to this circular enclosing the forms have been sent to the Members on 4th February 2022. The forms are also available in the websites of the Company www.pvpglobal.com and KFintech www.kfintech.com. Members holding shares in physical form are advised to update their KYC details with the Company's Registrar and Transfer Agents, KFintech.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Email:investorrelations@pvpglobal.com. Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company wil remain closed from 26th September 2022 to 30th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend, if declared. By order of the Board of Directors for PVP VENTURES LIMITED Sd/-Date : September 08, 2022 Prasad V. Potluri Place : Chennai Chairman & Managing Director



PICTUREHOUSE MEDIA LIMITED



CIN: L92191TN2000PLC044077 Reg. Office: KRM Centre, 9th Floor, Door No. 2, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031, Tamil Nadu Corp. Office: Plot No. 83 & 84, 4th Floor, Punniah Plaza, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana E-mail ID: ir.telephoto@pvpglobal.com; Website: www.pvpcinema.com

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Twenty Third (23rd) Annual General Meeting (AGM) of PICTUREHOUSE MEDIA LIMITED will be held on Friday, 30th September, 2022 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) for the purpose of transacting the business mentioned in the Notice dated September 06, 2022.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular No. 20/2020 dated 5th May. 2020. Circular No.17/ 2020 dated 13th April, 2020, Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No.02/2021 dated 13th January 2021. Circular No.21/2021 dated 14th December, 2021 and Circular No.2/2022 dated 5th May, 2022 (collectively referred to as 'MCA circulars') permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at the venue. In compliance with these MCA circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Twenty Third AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to the Members of the Company who have registered their e-mail addresses with the Company/Registrar & Share Transfer Agents.

In accordance with the aforesaid MCA circulars and the SEBI circulars dated 12th May, 2020,15th January, 2021 and 13th May, 2022. Notice of the AGM and the Annual Report 2021-22 will also be available on the website of the Company i.e. www.pypcinema.com and also hosted on the stock exchanges viz. www.bseindia.com. Members can participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members participating in the Meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

The instructions for joining the AGM and for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company/Cameo Corporate Services Ltd. can obtain Notice of the 23rd AGM, Annual Report and/or login details for joining the 23rd AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by writing to NSDL at evoting@nsdl.co.in with details of Folio No. and attaching a self-attested scanned copy of the PAN card.

The Resolutions covered in the AGM Notice will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of AGM). Voting through electronic means would commence at 9.00 a.m. on 26^{tt} September 2022 and would end at 5.00 p.m. on 29th September 2022. Please note that the voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 29th September 2022. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the cut off date may obtain the user ID and Password by sending a request a evoting@nsdl.co.in. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote during the AGM through evoting facility. Members who have cast their vote through remote evoting prior to the Meeting, may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.

Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank account through Electronic Clearing Service (NECS/NACH) or any other means (Electronic Bank Mandate) can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending a self-attested scanned copy of the cancelled cheque issued by the Banker after implementation of the Core Banking System, bearing the name of the sole shareholder (in case of joint holding the name of the first holder shall be mentioned in the cheque leaf) by email to investor@cameoindia.com Members holding shares in demat form can update their e-mail address and bank account details by submitting a request to the concerned Depository Participants. Considering the above, we urge the shareholders to update their e-mail id, bank account details and PAN with the Company/Cameo Corporate Services (R&TA)/Depository Participant to ensure receipt of the Annual Report, dividend and/or any other consideration and other communications from the Company. SEBI vide its circular No.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021 655 dated 3rd November, 2021 has mandated furnishing of PAN, KYC details, nomination and compulsory linking of PAN and Aadhaar by the shareholders holding shares in physical form. Letters pursuant to this circula enclosing the forms have been sent to the Members on $4^{
m th}$ February 2022. The forms are also available in the websites of the Company www.pvpcinema.com and www.cameoindia.com. Members holding shares in physica form are advised to update their KYC details with the Company's Registrar and Transfer Agents, Cameo Corporate Services Limited. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Email: ir.telephoto@pvpglobal.com. Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company wil remain closed from 26th September 2022 to 30th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend, if declared. By order of the Board of Directors for PICTUREHOUSE MEDIA LIMITED Sd/-Date : September 08, 2022 **Derrin Ann George** Place Company Secretary & Compliance Officer : Chennai

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Nalwa Sons Investments Limited

CIN: L65993DL1970PLC146414 Regd, Office: 28 Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015 Phone No.: (011) 45021854, 45021812, Fax No.: (011) 25928118, 45021982 Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana Phone No: (01662) 222471-83; Fax No: (01662) 220499 Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com

NOTICE OF 51st ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- 1) The 51" Annual General Meeting ('AGM') of Nalwa Sons Investments Limited ("the Company") will be held on Friday, 30" September, 2022 at 3:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 02/2022 dated 8" April, 2020, 13" April, 2020, 5" May, 2020, 13" January, 2021, 14" December, 2021 and 5" May, 2022 respectively and all other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1, CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020, SEBI/H0/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without physical presence of the Members at a common venue.
- In terms of the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 51" AGM and the Annual Report for the year 2021-22 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31" March, 2022, have been sent on 8" September, 2022 only by email to the Members whose email addresses are registered with the Company, Depository participants. The requirement of sending the physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.
- Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23" September, 2022, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting facility of Link Intime India Private Limited ('Link Intime'). All members are informed that:
- The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on 27" September, 2022 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-voting shall end on 29" September, 2022 at 5:00 P.M. (IST); ш
- IV. The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting , e-voting during the AGM is 23st September, 2022;
- VI. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. 23" September, 2022 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting during the AGM.
- VII. Members who vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the AGM.
- VIII. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- IX. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 23" September, 2022, may obtain the User ID and password by sending a request at email: rajiv.ranjan@linkintime.com. However, a person who is already registered with Link Intime for e-voting then existing User ID and password can be used to cast the
- In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may refer to the help section at https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranian (Assistant Vice- President), Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai-400083 at Contact No. 022-49186000 (Email: rajiv.ranjan@linkintime.com) or contact the Company. XI. The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 51" AGM and the Annual Report for the year 2021-22 and/or login details for joining the 51" AGM through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at investorcare@nalwasons.com. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only. XII. Notice of AGM is also available on the Company's website www.nalwasons.com and also on the Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in XIII. Mr. Rajesh Garg of M/s. Rajesh Garg & Co., Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 20" September, 2022 to Wednesday, 21" September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 51" AGM.

yaari

YAARI DIGITAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

(formerly Yaarii Digital Integrated Services Limited and Indiabulls Integrated Services Limited) (CIN: L51101HR2007PLC077999)

Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar, Phase 1, Gurugram – 122016, Haryana Website: www.yaari.com, E-mail: cs.iwsl@indiabulls.com

NOTICE OF 15[™] ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of Yaari Digital Integrated Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, 30th September, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as listed in the Notice dated September 5, 2022, convening the AGM in compliance with the General Circulars nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 21/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, and December 14, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62dated May 13, 2022, respectively and in compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI LODR Regulations"). The proceeding of AGM conducted shall be deemed to be made at the Registered Office of the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in AGM Notice.

In compliance with the MCA Circulars and relevant circulars issued by SEBI, the Notice convening 15th AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 ("Annual Report") has been sent, through electronic mode on September 7, 2022, to those members whose e-mail address is registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs).

The aforesaid documents are also available on www.yaari.com, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) (hereinafter referred to as "the Rules") and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 27, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for annual closing (for the purpose of AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and above mentioned Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its members to exercise their right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited (KFintech) for providing VC facility and e-voting. The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains instructions/details with regard to process of obtaining Login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective DPs.

Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility are provided below:

Link to VC	https://emeetings.kfintech.com/
Link for remote e-voting	For Individual members: https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL) https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL) For non-Individual members and members holding shares in physical form: https://evoting.kfintech.com
Cut-off date for determining the Members entitled to vote through remote e-voting or during the AGM	Friday, September 23, 2022. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company, as on September 23, 2022.
Commencement of remote e-voting period	Tuesday, September 27, 2022 at 10.00 A.M.

SHARAT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L05005AP1990PLC011276

Regd Office : Venkannapalem Village, T.P.Gudur Mandal, Nellore District, AP Pin 524002 Website : www.sharatindustries.com / Email : cs@sharatindustries.com / Phone No : 0861-2331727

NOTICE OF THE 32" ANNUAL GENERAL MEETING, **REMOTE E - VOTING AND BOOK CLOSURE DATES**

Notice is hereby given that the 32" Annual General Meeting ("AGM") of the members of M/s. Sharat Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, 29" September 2022 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OVAM") at 11:00 AM in compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 5" May, 2020 13" January, 2021 and 05" May 2022 read with the other previous circular issued in that connection herein collectively referred to as the ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/ CFD/ CMD1/CIR /P/2020/79 dated 12" May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), to transact the business as set out in the AGM notice.

In line with the MCA circulars the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2021-2022 is sent only via emails to all the shareholders whose email address was registered with the Company or the depositories/depository participants. The Annual Report along with the Notice of the AGM are also available at the website of the Company i.e., www.sharatindustries.com. The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM through voting by electronic means "E-Voting") and the business set out in the notice of the AGM may be transacted through E- Voting.

The Company has engaged CDSL to provide the facility of remote E - Voting to the members and the facility of E - Voting to the members participating in the AGM through VC/OVAM. The members will be provided with the facility to attend the AGM through VC/OVAM through the CDSL e- Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.com under shareholder/member login by using the remote E - Voting credentials. The process and manner of remote E - Voting, attending the AGM through VC/OVAM and E - Voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for members who have not registered their email has been provided in the notice of AGM. We further inform that

The Cut - Off date for determining the eligibility for remote E - Voting and Voting at AGM through E Voting system is 2210 September 2022. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories (in case of shares held in dematerialized form) as on the cut - off date i.e. 2210 September 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote E – Voting as well as voting in the AGM through E – Voting system.

Remote E- Voting shall commence from Monday, 26" September 2022 09:00 A.M to Wednesday 28" September 2022 05:00 P.M and E – Voting shall not be allowed beyond the said date and time. The facility for E- Voting shall also be made available to the members participating in the AGM through VC/OVAM iii. and the members, who have not cast their vote by remote E- Voting, shall be allowed to vote through E - voting in the AGM.

This notice is also available on the website of the Company at www.nalwasons.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Nalwa Sons Investments Limited Place: Hisar (Ajay Mittal) Date: September 8, 2022 **Company Secretary**



Email Id.: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jslstainless.com Corporate Office: Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066 Phone No.: (011) 26188345-60, 41462000, Fax No. (011) 41659169, 26101562

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The 42rd Annual General Meeting ('AGM') of Jindal Stainless Limited ("the Company") will be held on Friday, 30" September, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with Genera Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 02/2022 dated 8" April, 2020, 13" April, 2020, 5" May, 2020, 13" January, 2021, 14" December, 2021 and 05" May, 2022, respectively and all other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1 CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020, SEBI/H0/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without physical presence of the Members at a common venue.
- In terms of the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 42rd AGM and the Annual Report for the year 2021-22 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31" March, 2022, have been sent on 8" September, 2022 only by email to the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository participants. The requirement of sending the physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars
- Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off-date i.e. 23" September, 2022, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting facility of Link Intime India Private Limited ('Link Intime'). All members are informed that:
 - The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means:
 - The remote e-voting shall commence on 27" September, 2022 at 9:00 A.M. (IST);
 - The remote e-voting shall end on 29" September, 2022 at 5:00 P.M. (IST);
- The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date W. and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be

- 1	- 1		
	1	End of remote e-voting	Thursday, September 29, 2022 at 5.00 P.M.
		period	

The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on 29th September, 2022 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting. However to enable the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM. Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA/DPs or the persons who becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the Notice and can cast their vote through remote e-voting or through instapoll (e-voting) during the meeting. Detailed instructions are provided in the AGM Notice, which is available on the website of the Company viz. www.yaari.com and also on the website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and the website of KFintech at https://evoting.kfintech.com.

All documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement are available on the website of the Company for inspection by the Members.

Those shareholders whose e-mail ID is not registered, can also register their e-mail ID by following the process given in the AGM Notice or sending e-mail at evoting@kfintech.com by providing their name registered as per the records of the Company, address, e-mail ID, PAN, DP ID/Client ID or Folio Number and number of shares held by them.

Mr. Ajay Khandelwal, (Membership No. 519516), Proprietor of M/s. Khandelwal Ajay & Co., Practicing Chartered Accountants, has been appointed as Scrutinizer in accordance with the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) to act as Scrutinizer for e-voting process.

In case of any query / grievance(s) connected with attending the AGM through VC/OAVM or the electronic voting, members may contact Mr. P.S.R.C.H. Murthy, Manager – RIS, KFin Technologies Limited (Unit: Yaari Digital Integrated Services Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No.: 1800-309-4001; E-mail id: murthy.psrch@kfintech.com or evoting@kfintech.com.

By Order of the Board For Yaari Digital Integrated Services Limited

Place: Gurugram Date: September 8, 2022





iv. A Member may participate in the AGM through VC/OVAM ever after exercising his/her right to vote through remote E - Voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

Mr. Amresh Kumar, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for the remote E -Voting and E - Voting at the AGM. The Voting results shall be communicated by the Scrutinizer to the Chairman and the same shall be disseminated in the website of the Stock Exchange and the Company's websites.

In case of any gueries/grievances connected with the remote E- Voting and the E-voting in the AGM or if the vi. members need any assistance before or during the AGM, the members may contact Mr. Rakesh Dalvi (022 -23058738) at the designated email IDs: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

A member whose email address is not registered with the Company or depository/depository participant, can get his/her its email address registered by following the procedure mentioned below :

In case the shares of the Company are held by a member in physical form, such member shall submit scanned copy of a signed request letter mentioning his/her/its email address, name folio number and complete address along with Self - attested copies of Permanent Account Number ("PAN") Card and any document for proof of address (such as Driving License, Bank Statement, Election Card, Passport, AADHAAR Card etc.) by email to cs@sharatindustries.com or send these documents to the Share Transfer Agent of the Company i.e. Cameo Corporate Services Limited, "Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai – 600002, Phone No. 044-28460390-94, Email id: investor@cameoindia.com/cameo@cameoindia.com and

In case the shares of the Company are held by a member in dematerialized form, such member shall register his/her/ its email address in the demat account maintained with the depository participant. Further, such member can temporarily get the email address registered with the Company to receive through email, the notice of the AGM and Annual Report 2021-2022 and for obtaining the User ID and password for participation in the AGM through VC/OVAM and vote through E Voting system in the AGM or through remote E - Voting by submitting the scanned copy of a signed request letter mentioning his/her/its email address, name, DP ID and Client ID (16 digit DP ID + Client ID or 16 digit Beneficiary ID) along with the self- attested copies of Client master or consolidated Demat Account statement, PAN card and any document for proof of address (such as Driving License, Bank Statement, Election Card, Passport, AADHAR Card, etc.) through email to cs@sharatindustries.com

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the rules framed thereunder, the register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 2310 September 2022 to 2911 September, 2022 (both days inclusive) -sd/-

Place : Nellore Date : 08th September 2022

Sd/-

Priya Jain



allowed to change it subsequently;

- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting e-voting during the AGM is 23" September, 2022;
- VI. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. 23" September, 2022 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting during the AGM.
- VII. Members who vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the AGM.
- VIII. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- IX. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 23" September, 2022, may obtain the User ID and password by sending a request at email swapann@linkintime.co.in.
- However, a person who is already registered with Link Intime for e-voting then existing User ID and password can be used to cast the vote. In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may refer to the help section at https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Swapan Kumar Naskar. Associate Vice President & Head (North India), Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1" Floor, Plot No. NH2 C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 at Contact no. (011) 41410592/93/94 (Email swapann@linkintime.co.in) or contact the Company.
- The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 42" AGM and the Annual Report for the year 2021-22 and/or login details for joining the 42" AGM through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at investorcare@jindalstainless.com. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only
- XII. Notice of AGM is also available on the Company's website www.jslstainless.com and also on the Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in
- XIII. Mr. Sandeep Garg, Advocate, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- 4) Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23" September, 2022 to Saturday, 24" September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 42[™] AGM.

This notice is also available on the website of the Company at www.jslstainless.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

A 30 3 36 37 49 30 3 50 59 30	For Jindal Stainless Limited
Place: Gurugram	(Navneet Raghuvanshi)
Date: 8 th September, 2022	Head Legal & Company Secretary







New Delhi

S. Sharat Reddy

Executive Director

DIN:02929724

6

जनसता

9 सितंबर, 2022

Parsvnaths

दिनांकः 08, सितम्बर, 2022

साथ कोई व्यवहार, ऐक्सिस बैंक लिमिटेंड के प्रभार के अध्ययीन होगा।

की उफ्धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय में प्रतिभूत आस्तियों

स्थानः दिल्ली

🔥 ऐक्सिस बैंक

ऋणी/सहऋणी

का नाम

अनिता देवी पत्नी भरत सिंह

बंधककर्ता)

2020.

रिमोट ई-वोटिंग

निवेदन है :

का मोचन करवा लेवें।

पुत्र गोविन्द राम (सह-आवेदक/

Parsvnath Developers Limited

Registered & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032 CIN: L45201DL1990PLC040945; Phone No: 011-43010500, 011-43050100; Fax No: 011-43050473 e-mail address: secretarial@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने की पूर्णता, पुस्तिका बंद होने तथा ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा यह सुचित किया जाता है कि एजीएम आयोजित करने की सूचना में उल्लेखित सामान्य तथा विशेष व्यवसायों के निष्पादन के लिए पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कांफेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को दोपहर:02:30 बजे आयोजित की जायेगी। एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की कम्पनी की वार्षिक रिपौट तथा एजीएम की सुचना ई-मेल द्वारा कम्पनी के सदस्यों के पास उनके पंजीकत ई-मेल पते पर भेजी जा चुकी है। उपर्युक्त वार्षिक रिपोट तथा एजीएम आयोजित करने की सूचना को ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य 08 सितम्बर, 2022 को पूरा किया जा चुका है।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई—मेल पते पंजीकृत नही कराये हैं वे कृपया अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदारों के पास (डीमैट प्रारूप मे शेयर धारिता के मामले में) अधवा मास सर्विसेज लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) (भौतिक प्रारूप में शेयरधारिता के मामले में) के पास पंजीकृत करा लें ।

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 31वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोट कम्पनी की वेवसाइट www.parsvnath.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपेंाजिटरी लिमिडेट (एनएसडीएल) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को सुचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 44 सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित उसके तहत निर्मित प्रासंगिक नियमों एव उपयुर्वत परिपत्रों के अनुसार कम्पनी 31वीं एजीएम में पारित कियें जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रोंनिक रूप से अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रावधानित कर रही है। सदस्यों को पुनः सुचित किया जाता है कि ई--वोटिंग सुविधा हेतु पात्र सदस्यों को सुनिश्चत करने के उददेश्य से कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 निर्धारित की गयी है। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट--ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई--वोटिंग और एजीएम के दौरान ई---वोटिंग सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि रिमोट ई–वोटिंग प्रकिया मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को प्रातः 9:00 बजे प्रारभ्भ होगी और ब्रहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को सायः 5:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके पश्चात रिमोट ई--वोटिंग मॉडयूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त उसे इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नही होगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नही किया है वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई--योटिंग द्वारा मतदान किया है वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते है किन्तु वे एजीएम के दौरान दोबारा मतदान करने के पात्र नही होंगे।

ई—वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए कम्पनी ने श्री अशोक त्यागी (सदस्यता सं F2968, सी पी सं 7322) कार्यरत सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

एजीएम में उपस्थित होने तथा रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु विस्तृत प्रकिया / निर्देश 31वीं एजीएम की सूचना में शामिल है।

पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर पंदिर के सामने,

लॉ गार्डन, एलिसक्रिज, अहमदाबाद-380006

मांग सचना

रिछपाल सिंह के नाम 13-06-2022 06-09-2022 ह. 1720077.9

सम्पत्ति का विवरण की दिनांक की दिनांक

सीकर जिला सीकर में स्थित है क्षेत्रफल 227.50

कव्जे

हरता/- (प्राधिकृत अधिकारी) ऐक्सिस बेंक लिमिटेड

15.2021

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अबोहस्ताक्षरकर्ता ऐक्सिस बेंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) संपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणीयों को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60

दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि लौटाने के लिये निर्गमित किया । ऋणी के वह राशि लौटाने में विफल डोने पर

हरणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता

उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपतित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत् उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्थ निम्नलिखित दिनांक को ग्रहण कर लिया हैं। ऋणी को विशिष्टतया औ

र्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति व

उपरोक्त वर्णित ऋणी/सह—ऋणी/जमानतदार को 30 दिवस का मुगतान हेतु नोटिस दिया जाता है अन्वथा इर

नोटिस के प्रकाशन से 30 दिवस की समयावधि पूर्ण होने पर बंधक संपर्तित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8

व 9 के प्रावचानों के अनुसार बेच दी जाएगी। ऋणीयों को सचेत किया जाता है कि वे सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 1:

हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L74899DL1988PLC031191

पंजीकृत कार्यालय : बी-2/8, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029

दूरभाष : 011-41650348, फैक्स : 011-26191358

ई-मेल : accounts@hindustanadhesives.com, वेबसाइट : www.bagla-group.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सूचना में उल्लिखित प्रकार्यों

पर लेन-देन के लिए कम्पनी के शेयरधारकों की एजीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों

(''वीसी/ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 2.00 बजे अप. भारतीय मानक समय

'भा.मा.स.'') पर आयोजित की जायेगी। कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक

अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी

2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 ('एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय

प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई

सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी /2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 सहित 34वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों के पास भेजी

एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त

कर दी गयी हैं। अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, जिसमें 34वीं एजीएम की सूची तथा

व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, कम्पनी की वेबसाइट www.bagla-group.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की

वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. की वेबसाइट

समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी

अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के अनुपालन में भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सामान्य

बैठकों का सचिवीय मानक ('एसएस-2') तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के

विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी एजीएम में लेन–देन हेतु प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में अपने सदस्यों को पूर्व में रिमोट ई-

वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है, इस उद्देश्य के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक

रिमोट ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने का

मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे प्रात) (भा.मा.स.)

साधनों के माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. को नियुक्त किया है।

(क) रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

रिमोट ई–वोटिंग प्रारम्भ होना

सेबी/एचओ/सीएफडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक

जायेगी जिनके ई–मेल पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।

https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

(आवेदक/ बंधककर्ता) रिछपाल सिंह | से रिहावशी संपत्ति जो गांव पिपराली तहसील

वर्गगज।

ई—वोटिंग में अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध है या सदस्य www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारको द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारको के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का सन्दर्भ लें या टोल फ्री नं 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजे।

ई—वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या शिकायत के लिए सम्पर्क करें : श्री मडंन मिश्रा, कम्पनी सचिव, ई—मेल पता : secretarial@parsvnath.com ,पता : पार्श्वनाथ टॉवर, निकट शाहदरा मेट्रो स्टेशन, शाहदरा, दिल्ली –110032, सम्पर्क नं : 011–4310500 / 43050100

कोई व्यक्ति ई—मेल द्वारा सचना तथा वार्षिक रिपौट भेजे जाने के उपरान्त सदस्य बन जाता है किन्त जो कट—ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकता है। ऐसा सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है तथा ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोट और एजीएम अयोजित करने की सूचना की एक प्रति और ई--वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपने प्रासंगिक विवरणों जैसे डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी/फोलियों नं0 सहित आस्टीए के पास investor@masserv.com पर तथा एक कॉपी secretarial@parsvnath.com पर कम्पनी के पास रिक्वीजीशन भेजें।

चुंकि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार 31वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी, अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार सदस्यो द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एतद्वारा यह संघना भी दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों तथा सचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार 31वीं एजीएम के उददेश्स से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ, शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार,30 सितम्बर, 2022 (दोनो तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

मांग सूचना में

बकाया राशि

(स. में)

+ ख्याज एवं

लागर्वे

एमको इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 10795, शॉप नं. 7, जीएफ, झंडेवालान रोड, रेक्सीन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली–110055 कॉर्पोरेट ऑफिस : सी 53-54, सेक्टर 57, नोएडा, यू.पी. 201301

फोन नं : 0120-4601500, CIN : L74899DL1987PLC029035, ई—मेल : amco.india@ymail.com, वेवसाइट : www.amcoindialimited.com

पैतीसवी (35वी) वार्थिक आम बैठक की सूचना ई-वोटिंग और बुक क्लोजर के बारे में जानकारी

।. एजीएम की सूचना

एतददारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवध्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा सेवी परिपत्र सं सेवी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 (संयुक्त रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए एमको इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 35यीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को अप. 1.00 बजे आईएसटी में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमाँ (''ऑएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए सक्षम होंगे और इसे https://www.evotingindia.com पर रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेशियल्स के उपयोग पर शेयरहोल्डर्स / मैम्बर्स के अंतर्गत लॉगइन करके एक्सेस किया जा सकता है। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक मैम्बर्स लॉगइन पर उपलब्ध होगा जहां कम्पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेत् की जाएगी।

संगत परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी के जन सदस्यों को 8 सितम्बर, 2022 को भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल पते कम्पनी के आरटीए के पास पंजीकत हैं। उपरोक्त कथित दरतावेज कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

2. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना बोट देने की सविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण नीचे वर्णित तिथियों पर सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई—बोटिंग'') का उपयोग करके अपना बोट रिमोटली दे सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तिथि एवं समय 27.09.2022 (मंगलवार) प्रात : 10:00 बजे (आईएसटी) रिमोट ई—वोटिंग समाप्ति तिथि एवं समय 29.09.2022 (बृहस्पतिवार)) सायं : 05:00 बज (आईएसटी)

29 सितम्बर, 2022 को साथं 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल बन्द कर दिया जाएगा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

इसके अलावा, एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग ("एजीएम के दौरान ई--वोटिंग" की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई—बोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं दिया है, केवल वे ही ई—वोटिंग के माध्यम से एजीएम में बोट देने में सक्षम होंगे।

अन्य विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 और उससे जुडे नियमों तथा अन्य सांविधिक प्रावधानों के अनुसरण में अपेक्षित अन्य विवरण निम्नानुसार है:

क) एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

 विमेटिरियलाइण्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या ऐसे सदस्य जिनका ई--मेल पता पंजीकृत नहीं है, के लिए रिमोट ई--वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई--वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है और यह कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com पर भी उपलब्ध है।

ग) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में भागीदारी या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा पाने के हकदार होंगे।

 घ) शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के आनुपातिक होगा।

s) जिन सदस्यों ने अपना बोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हें लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

च) ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और 35वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2022 को शेयर धारण करता है. वह रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के संबंध में बैठक की सुचना में दिये गये निर्देशों का पालन कर सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकता है या टोल फ्री नंबर 1800

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक मृत व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात, पुत्र अज्ञात पता अज्ञात जिसकी उम्र 50 वर्ष, कदः 5'6", रंगः गहरा, जिसने नीले रंग का अस्पताल का गाउन पहना हैं। जो कि 💟 02.09.2022 को सायं 6:56 बजे जीटीएन अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली में मृत अवस्था

दि.प./753/शाहदरा/2022



में मिला। इस संदर्भ में FIR/DD No.106A, दिनांक: 02.09.2022 थाना जीटीबी एन्क्लेव, दिल्ली में दर्ज है।

इस मृतक व्यक्ति के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी/सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरित एवं निम्नलिखित नम्बरों पर सचित करने की कुपा करें। थानाध्यक्ष थानाः जीटीबी एन्क्लेव, दिल्ली फोन न. 011-22137444, 22580947

मो.: 7065036031



आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 04.05.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों (ऋणकर्ताओं) 1) श्री संजीव कुमार, श्रीमती कृष्णा कुमारी निवासी ग्राम– बांदी, तहसील–महावन, जनपद–मथुरा (उत्तर प्रदेश)–281301 (गारंटरगण) एनए को सूचना में अंकित राशि रु. 18,98,658/-+ 03.04.2018 के अनुसार व्याज का, यसूलीकरण की तिथि तक संविदात्मक दरों एवं शेषों पर भावी व्याज, शुल्कों इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 80 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

(1) चुंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रवत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 07 सितंबर 2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। (2) ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 18,98,658 /- की एक राशि. 03.04.2018 के अनुसार ब्याज, तथा मांग सूचना में अंकित उपुर्यक्त तिथि से लेकर के भगतान की तिथि तक अनुबंधितानुसार इस राशि पर संविदात्मक दरों एवं शेषों पर गणनाकृत ब्याज, शुल्कों, इत्यादि, मांग सूचना के निर्गतन के पश्चात किए गए प्रतिभुगतानों, यदि कोई किए गए हों, को घटाकर, हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रभाराधीन होगा। आधिपत्य ग्रहण करने की तिथि के अनुसार भूगतानयोग्य देयराशियां रु. 20.01.924/- (रुपये बीस लाख एक हजार नी सौ चौबीस मात्र) हैं, जो भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दरों एवं शेषों पर गणनाकृत भावी ब्याज, शुल्कों, इत्यादि के साथ भगतानयोग्य है।

(3) ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उसके पास उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। इस उपवाक्य का उप-उपवाक्य (8) यह व्यवस्था देता है कि-"जहां जिस स्थिति में समस्त लागतों, शुल्कों एवं उनके द्वारा उपगत व्ययों के साथ प्रतिभूत ऋणदाता की बकाया देयता राशियों का, निम्न प्रतिभूति परिसंपत्तियों का पट्टा, समनुदेशन अथवा विक्रय के माध्यम से जनता से कोटेशनें या निविदा आमंत्रित करके अथवा सार्वजनिक नीलामी करके अथवा निजी संधि द्वारा हरतांतरण करने हेत् निर्गत होनेवाली सुचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व, किसी भी समय प्रतिभूत ऋणवाता को भुगतान कर विया जाता है तो:-(1) प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रतिभूत ऋणदाता हारा पट्टा समनुदेशन अथवा विक्रय के माध्यम से हरतांतरण नहीं किया जाएगा; तथा (2) यदि प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा इस उप-खंड के अंतर्गत ऐसी राशि का भुगतान करने से पूर्व परिसंपत्तियों का पटटा अथवा समनुदेशन अथवा विक्रय के माध्यम से हस्तांतरण हेतु कोई कार्यवाही की गई है, तो ऐसी प्रतिभूत परिसंपत्तियों को पटटा अथवा समनुदेशन अथवा विकय के माध्यम से हस्तांतरण करने हेत प्रतिभुत ऋणदाता द्वारा कोई भावी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

निदेशक मंढल के आदेशानुसार कृते पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड हस्ता/-(मंडन मिश्रा) कंपनी सचिव एंव अनुपालन अधिकारी सदस्यता स. ए-14374

केन फिन होम्स लि. शॉप नं. 4, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कामर्शियल बेल्ट, अल्फा—1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन—201308 CIN: L85110KA1987PLC008699, ई—मेल: greaternoida@canfinhomes.cor Can Fin Homes Ltd nhomes.con Sponsor: CANARA BANK मोबाइल सं : 7625079164, 0120–4569974

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] अचल सम्पत्ति के लिए

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आषि का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रव नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत धारा 13(2) के तहत नियम के 3 के साथ पठित प्रव शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 31.01.2022 को जारी की थी जिसमें कर्जदार श्रीमती अनु शर्मा पत्नी श्री अंजनी शर्मा एवं श्री अंजनी शर्मा पुत्र श्री कृष्ण चन्द शर्मा से सूचन में वर्णितानुसार बकाया राशि रु.10,87,248 ∕ − और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 3 सितम्बर 2022 को प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है । विशेष रूप से कर्जदार / रों, गारंटर / रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतू सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, शाखा मानेसर की बकाया राशि **रु.10,87,248 /** — और उस पर आगे ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण फ्लैट सं. एफ–4, रियर एलएचएस फ्लैट, प्रथम तल, प्लॉट सं. 101 वृन्दावन गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005, चौहद्दी निम्नानुसारः उत्तर : फ्लैट सं. एफ5 दक्षिण ः प्लॉट सं. 100 पश्चिमः सर्विस लेन पूर्व : फ्लैट सं. एफ3 हस्ता. /-प्राधिकृत अधिकारी, तिथिः 08.09.2022 स्थानः ग्रेटर नोएडा केन फिन होम्स लिमिटेड

मेवात जिंक लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L27204DL 1991PLC046120 पंजीकृत कार्यालय : क्र.सं. 4873/5 एसएफ फाटक नमक हौज काजी, दिल्ली सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली – 110006, इन, दूरभाष नं.– 011–23234316, ई–मेल आईडी : mewatzinc@gmail.com, वेबसाइट : www.mewatzinc.com 29वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई—वोटिंग जानकारी के लिये सचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये मेवात जिंक लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम''), वीडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 अपराह्न 03.00 बजे आयोजित की जायेगी।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (OAVM) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी और बैठक में सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। तदनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से दी गई अनुमति के अनुसार सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सभा की सूचना, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई—वोटिंग के विवरण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिनके ई—मेल आईडी कम्पनी/आरटीए /डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सूचनाओं के ईमेल को पूर्णता की तिथि शेयरधारकों के लिये 8 सितंबर, 2022 है। यदि आपने कम्पनीधडिपॉजिटरी के पास अपने ई मेल आईडी दर्ज नहीं कराये हों तो कृपया वित्त वर्ष 2021–2022 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई–वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपने ई–मेल आईडी पंजीकत करने हेतु नीचे दिये गये निर्देशों का अनुसरण करें।

भौतिक धारिता रू अपने फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रॉन्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतरू सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतरू सत्यापित 22 55 33 पर कॉल कर सकता है।

- छ) सदस्यगण जिन्होंने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे अपने संबंधित डियॉजिटरी प्रतिभागियो (ढीपी) के पास अपडेट कराएं और भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपना ई--मेल पता कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यथा बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ई--मेल investor@beetalfinancial.com के माध्यम से पंजीकृत कराएं।
- त) यदि आपको सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से एजीएम में भाग लेने एवं ई–वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न या परेशानी है तो आप श्री राकेश दल्वी, वरि प्रबंधक (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराधन पयुचुरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पुर्व), मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं या ई-मेल : helpdesk.evoling@cdslindia.com पर लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री मोहित बजाज, मैसर्स मोहित बजाज एंड एसोसिएटस, पेशेवर कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. बुक क्लोजर

35वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार 24 सितम्बर, 2022 से शजवार, 30 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कृत्ते एनको इंडिया लिमिटेड
हरता./-
सुरेन्दर कुमार गुप्ता
प्रबंध निदेशक
ढीआईएन : 00026609

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

CIN: L65993DL1970PLC146414 **पंजीकृत कार्यालय** : 28, नजफगढ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110015 फोन नं. (011)45021854,45021812,फॅक्स नं. (011)25928118,45021982 ब्रांच ऑफिस : ओ.पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499 ई-मेल आईडी: investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

51र्वी वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 51वीं वार्षिक सामान्य बैठक, शुक्रवार 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 3.30 बजे (आईएसटी), कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 और 02/2022 क्रमानुसार दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 14 दिंसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/ पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेत् वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोर्जित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को किसी उभय स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

- एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, 51वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2021—22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, उन सदस्यों को 8 सितंबर, 2022 को केवल ई—मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई—मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीबद्ध है । एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कूलर्स तथा सेबी सर्कलर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।
- विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात 23 सितंबर, 2022 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में इविवटी शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना वोट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('लिंक इनटाइम' की रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि
- एजीएम सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है;
- रिमोट ई–वोटिंग 27 सितंबर, 2022 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी;
- iii. रिमोट ई-वोटिंग 29 सितंबर, 2022 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
- iv. लिंक इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
- रिमोर्ट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए पात्रता निर्घारण हेत् विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितंबर, 2022 है;
- vi. केवल वह व्यक्ति रिमोट ई--वोटिंग/एजीएम में ई--वोटिंग द्वारा वोट डालने का हकदार

अचल संपत्तियों का विवरण

प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूतियों के विवरण		
साम्यापूर्ण बंधक	आवासीय संपत्ति जो खसरा सं. 201 जीए, मौजा–बांदी, तहसील–महावन, जनपद-मथुरा–281301, उतर प्रदेश में स्थित है जिसकी माप 125.41 वर्ग मीटर है संपत्ति श्री संजीव कुमार के नाम पर है		
दिनांक : 07/09/202 स्थान : मथुरा	22 प्राधिकृत अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक		



42वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और पुस्तक बंद होने की सूचना

रतदद्वारा सूचित किया जाता है कि

- कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21 / 2021 और 02 / 2022 क्रमानुसार दिनाकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/ पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी सर्कलर्स') के अनुपालन में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ("कम्पनी") की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), एजीएम की सूचना में सुचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेतु शुक्रवार, 30 सितंबर 2022 की सुबह 11.00 बंजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी. जिसमें सदस्यों को किसी उभय स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- . एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, 42वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2021–22 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत् लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, उन सदस्यों को 8 सितंबर, 2022 को केवल ई—मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई—मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीबद्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।
- विच्छेदन तिथि (कट—ऑफ डेट) अर्थात 23 सितंबर, 2022 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना चोट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('लिंक इनटाइम') की रिमोट ई--वोटिंग /ई--वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सचना दी जाती है कि :
- एजीएम सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है;
- रिमोट ई–वोटिंग 27 सितंबर, 2022 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी;
- रिमोट ई—वोटिंग 29 सितंबर, 2022 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
- लिंक इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और किसी

रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होना गुरुवार, 29 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.)	तथा बैंक), पैन (पैन कार्ड की स्वतरू सत्यापित स्केन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतरू सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अन्तरण एजेन्ट्स निविस कॉर्पसर्व एलएलपी के पास info@nivis.co.inij अनुरोध भेजें।	vi. कंवल वह व्यक्ति रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—योटिंग द्वारा वोट डालने का हकदार होगा, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों ने पंजिल में निर्मेश्वर कि पंजिल के बिर्वाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों	जाएगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके पश्चात लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. द्वारा मतदान हेतु ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा और कथित तिथि एवं समय के उपरान्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।	डीमैट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार अपना ई–मेल पता पंजीकृत करायें।	की पंजिका में विच्छोदन तिथि (कट—ऑफ डेट) 23 सितंबर, 2022 को मौजूद होगा। vii. रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट डालने के बाद सदस्य एजीएम के दौरान ई—वोटिंग का	v. रिमोर्ट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु विच्छेदन जिंदा के लिए पात्रता निर्धारण हेतु विच्छेदन
(ख) सदस्यों के मताधिकार शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 ('कट-ऑफ तिथि') तक कम्पनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर	प्राक्रयों के अनुसार अपना इ—मले पता पंजाकृत कराय। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिये कम्पनी की वेबसाईट www.mewatzinc.com पर भी उपलब्ध	हकदार नहीं होगा।	तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितंबर, 2022 है;
पूँजी के उनके अनुपात में होंगे। रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली की सुविधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध करायी जायेगी,	है। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा—संशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन	viii. सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में	vi. केवल वह व्यक्ति रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—वोटिंग द्वारा वोट डालने का हकदार होगा, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अधवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों
और बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं	अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ	भाग ले सकता है, परंतु उसको बैठक में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।	हांगा, जिसका नाम सदस्या का पाजका अधवा डिपाजिटरा द्वारा अनुरक्षित लामाधा स्वामिया की पंजिका में विच्छेदन तिथि (कट–ऑफ डेट) 23 सितंबर, 2022 को मौजूद होगा।
किया है, वे बैठक के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि	प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में	ix. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा	फो पोजको में विच्छेदन तीच (कट-जोक छट) 23 सितंबर, 2022 को मोजूद होगी। vii. रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के बाद सदस्य एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का हकदार
तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही पूर्व में रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम	सदस्यों को सक्षम बनाने के लिये अपने पोर्टल www.nsdl.co.in के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस	विच्छेदन तिथि (कट ऑफ-डेट) 23 सितंबर, 2022 को शेयरधारक है, ई-मेल	भार तिमार इन्यारम हारा याट डालम के बाद संदर्ख एजाएन के दाराम इन्यारम का हकदार महीं होगा।
के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा के पात्र होंगे।	(इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध	rajiv.ranjan@linkintime.com पर अनुरोध भेजकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड	viii. सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग
(ग) कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता	कराई है। रिमोट ई—वोटिंग अवधि मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 (09.00 बजे पूर्वा.) को शुरू होगी तथा गुरुवार,	प्राप्त कर संकृता है। तथापि कोई व्यक्ति जो ई—वोटिंगू के लिए लिंक इनटाइम के साथ	ले सकता है, परंतु उसको बैठक में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
है तथा कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी के शेयर धारण करता है, वह https://instavote.linkintime.co.in	29 सितंबर, 2022 (05.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई—वोटिंग की अनुमति नहीं	पहले से पंजीकृत है, वह अपनी वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट	ix. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा विच्छेदन
पर निवेदन भेजकर या टोलफ्री नं. 011–41410592/93/94 तथा 022 – 49186000 पर कॉल करके तथा लिंक	होगी। 23 सितंबर, 2022 की कट—ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारिता करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा इस अवधि में मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति	डालने के लिए कर सकता है।	तिथि (कट-ऑफ डेट) 23 सितंबर, 2022 को शेयरधारक है, ईमेल
इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. द्वारा प्रावधानित के अनुसार enotices@linkintime.co.in ई-मेल भेजकर रिमोट	करने वाल कम्पना के सदस्य रिमाट इ—वाटिंग द्वारी इस अवधि में मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2022 को	x. ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण	swapann@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर
ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है	सूयना के प्रेपण के बाद केन्यना का सदस्य बनते हैं तथा कट—आफ तिथि अयति 23 सितंबर, 2022 की शेयरधारित करते हैं, evoting@nsdl.co.in अथवा आरटीए, निविस कॉर्पसर्व एलएलपी को info@nivis.co.in	https://instavote.linkintime.com का हेल्प सेक्शन देखें अथवा श्री राजीव रंजन	सकता है।
उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।	पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के	(असिस्टेंट वाइस–प्रेसिडेंट), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101,	 तथापि कोई व्यक्ति जो ई—्योटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से पंजीकृत है, वह
(घ) जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी बैठक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग	लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी	247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुंबई—400083 से सम्पर्क नंबर 022—49186000 (ई—मेल rajiv.ranjan@linkintime.com) पर सम्पर्क करें अथवा	अपनी वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए कर सकता है।
ले सकते हैं किन्तु पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे।	तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग के लिये सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग पद्धत्ति	022-49188000 (इन्मल rajiv.ranjan@iinkinume.com) पर सम्पक कर अथव। कम्पनी से सम्पर्क करें।	ई—बोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की रिश्वति में, सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in के हेल्पसेक्शन देखें अथवा श्री स्वप्न कुमार नस्कर,
(ङ) यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में शेयरधारक की कोई पूछताछ या समस्या है तो आप	निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसे परिवर्तित	xi. भौतिक रूप से शेयरों के धारक सदस्य, जिनके द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में	nttps://instavote.inkuntime.co.in के हत्यसंवर्शन देखे अयवा आ स्वप्न कुमार नस्कर एसोसिएट बाइस प्रेसिडेंट एवं हेड (नॉर्थ इंडिया), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स	करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा	प्रजीकृत नहीं करवाया गया है तथा जो 51वीं एजीएम की सचना तथा वर्ष 2021–22	रसासिएट बाइस प्रासंखट एवं ठंड (गांव इाडवा), लिक इंगटाइन झंडवा प्राइवट लिनिटड, नोबल हाइटस, पहली मंजिल, प्लॉट नं, एनएच2 सी1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के
('एफएक्यू') तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-	जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते	रेजी के रिपोर्ट तथा / अथवा ई—वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम	समीप, जनकपुरी, नई दिल्ली—110058 से सम्पर्क नं. (011) 41410592/93/94 (ई—मेल :
मेल कर सकते हैं या 022-49186000 पर कॉल कर सकते हैं।	हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। सीएस बलदेव सिंह कस्तवाल, कार्यरत कम्पनी	से 51वीं एजीएम से जुडने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छक हैं, वे अब	swapann@linkintime.co.in) पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें।
(च) रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक के	सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 3616 एवं सीपी नं. 3169) को ई—वोटिंग प्रक्रिया के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई—वोटिंग की विस्तुत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजी गई पत्र में वर्णित है। ई—वोटिंग	अपना ई—मेल पता कम्पनी में पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेत् वे फोलियो	xi. भौतिक रूप से शेयरों के धारक सदस्य, जिनके द्वारा अपना ई—मेल पता कम्पनी में पंजीकृत
रूप में नियुक्त किया गया है जो एजीएम की दौरान सम्पन्न हो सकती है।	गया है। रिमाट इन्वाटिंग की विस्तृत प्राक्रया एजाएम की सूचना के साथ मेजा गई पत्र में वाणत है। इन्वाटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्नेह समस्या सुश्री ऐश्वर्या परवल, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, मेवात जिंक	नंबर, पूरा पता और पंजीकृत करवाने हेतु ई—मेल पता के उल्लेखयुक्त स्वहस्ताक्षरित	नहीं करवाया गया है तथा जो 42वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट
(छ) कृपया ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एक बार अपना मतदान करने के पश्चात आप अपने मत को	लिमिटेड, क्र.सं. 4873 / 5 एसएफ फाटक नमक होज काजी, दिल्ली सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली–110006, ईमेल	अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन	तथा/अथवा ई—वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 42वीं एजीएम से
एजीएम में सशोधित नहीं कर सकते या मतदान नहीं कर सकते हैं। हालाँकि आप एजीएम में शामिल हो सकते	:mewatzinc@gmail.com इन को संबोधित की जा सकती है।	में किसी दस्तावेज की स्व सत्यापित प्रति ई—मेल द्वारा कम्पनी को	जुडूने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अब अपना ई—मेल पता कम्पनी में
हैं और परिचर्चा में भाग ले सकते हैं।	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा	investorcare@nalwasons.com पर भेज सकते हूँ। डीमैट रूप में शेयरों के धारक	पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे फोलियो नंबर, पूरा पता और पंजीकृत करवाने
(ज) एतद्वारा यह पुनः कहा जा रहा है कि वे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2022 तक सदस्यों के	सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्वारा यह	सदस्यों से अपना ई—मेल पता केवल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के	हेतु ईमेल पता के उल्लेखयुक्त स्वहस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी दस्तावेज की स्व सत्यापित प्रति ईमेल
रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग	भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक साधारण सभा	पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है।	जार सदस्य के प्रजाकृत पता के समयन में किसा दस्तावर्ण को स्य सत्यापित प्रति इ—मल द्वारा कम्पनी को investorcare@jindalstainless.com पर भेज सकते हैं। डीमैंट रूप में शेयरों
प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।	में शेयरधारकों का अभिलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022	xii. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर तथा लिंक	के धारक सदस्यों से अपना ई—मेल पता केवल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के
(झ) एजीएम के दौरान की जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम कम्पनी द्वारा एजीएम की तिथि के 2 दिनों	(दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। मेवात जिंक लिमिटेड के लिये	इनटाइम की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।	पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है।
के भीतर कम्पनी द्वारा घोषित किये जायेंगे और इसे कम्पनी तथा रिमोट ई-वोटिंग कम्पनी की वेबसाइटों पर प्रदर्शित		xiii. मेसर्स राजेश गर्ग एंड कं. के श्री राजेश गर्ग, अभ्यासरत कंपनी सचिव को निष्पक्ष तथा	xii. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jslstainless.com पर तथा लिंक इनटाइम
किया जायेगा तथा इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जायेगी।	हस्ता./– गोपाल जुंवर	पारदर्शी प्रक्रिया में ई—योटिंग के पूर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।	की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।
कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के	स्थान : पुणे प्रबंध निदेशक	4. कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 से	xiii. निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ईवोटिंग के पर्यवेक्षण के लिए श्री संदीप गर्ग, अधिवक्ता को
अनुसार पुनः सूचना दी जाती है कि वित्त वर्ष 2021–22 के एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी	तिथि : 05 सितंबर, 2022 डीआईएन : 09537969	बुधवार, 21 सितंबर, 2022 (दोनों तिथियों सहित) तक 51वीं एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद	पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
की शेयर अन्तरण पुस्तिका 24 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।		रहगा।	4. कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से शनिवार,
बोर्ड के आदेशानुसार		एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज	24 सितंबर, 2022 तक (दोनों तिथियों सहित) 42वीं एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी।
हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड		की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां	एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jslstainless.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की
हस्ता./-		कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड	वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर
मधुसूदन् बगला		स्थानः हिसार (अजय मित्तल)	सूचीबद्ध है। कृते जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
तिथि : 9 सितम्बर, 2022 (प्रबन्ध निदेशक)		तिथि : 8 सितंबर, 2022 कंपनी सचिव	स्थानः गुरुग्राम (नवनीत रघुवंशी)
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 01425646			तिथि : 8 सितम्बर, 2022 लीगल हेड एवं कंपनी सचिव

www.readwhere.com

नई दिल्ली